#### **ESPRIT STONES LIMITED**

(Formerly Known as 'Esprit Stones Private Limited')
Reg. office: - SP 1, Udyog Vihar, Sukher Industrial Area, Udaipur, Rajasthan-313004
CIN: U74999RJ2016PLC056284, Website: www.espritstones.com

Phone No. 9116652582 Email Id: legal@espritstones.com

**September 07, 2024** 

To,
The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051.
Symbol: ESPRIT

### <u>Sub: Newspaper Advertisement for 08th Annual General Meeting of the Company and E-Voting Information</u>

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that the 08th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, September 30, 2024, at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means.

Pursuant to the Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Pursuant to General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, No. 17/2020 dated 13th April 2020, No. 20/2020 dated 5th May 2020, No. 02/2021 dated 13th January 2021, No. 21/2021 dated 14th December 2021, No. 02/2022 dated 05th May, 2022, No. 10/2022 dated 28th December 2022, and No. 09/2023 dated 25th September 2023 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published today i.e. Saturday September 07, 2024 in the "Financial Express" English (All India Editions) and "Business Remedies" Hindi (Jaipur Edition), for post-dispatch/post intimation to the shareholders of the Company relating to the Notice of the 08th Annual General Meeting along with the E-Voting information.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Esprit Stones Limited** 

Anjali Pandey Company Secretary and Compliance Officer Membership No: ACS 45660

Encl.: As above

**FINANCIAL EXPRESS** 



### BHARAT FORGE LIMITED

CIN: L25209PN1961PLC012046

Regd. Office: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune - 411 036, Maharashtra, India Tel. No.: 020-6704 2850 / 2476 Fax No.: 020-2682 2163 Email: secretarial@bharatforge.com Website: www.bharatforge.com

### NOTICE

(For attention of the Equity Shareholders of the Company) Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

This Notice is hereby given, that Bharat Forge Limited would be transferring shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF), pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("Rules"). The Rules, inter alia, contain provisions for transfer of share(s) in respect of which dividend(s) have not been claimed by the shareholder(s) for seven (7)

consecutive years or more, to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

In compliance with the requirements set out in the IEPF rules, the Company has already sent individual notices to all the concerned members whose shares are liable to get transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address in

Shareholders are requested to note that in case the dividend(s) are not claimed by December 07, 2024, those equity share(s) in respect of which the dividend remains unclaimed, including all the benefits accruing on such shares, shall be transferred to IEPF as per the timelines and procedure prescribed in the Rules, without giving any further notice to the shareholders and no liability shall lie against the Company in respect of equity shares so transferred.

The Company has also made available the complete details of the concerned shareholders whose shares are liable for transfer to IEPF on its website at: www.bharatforge.com.

Shareholders are requested to refer to link: https://www.bharatforge.com/investors/shareholders-information/lepf to verify the details of unclaimed dividend(s) and the share(s) liable to be transferred to IEPF.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend(s) and equity share(s) transferred to the IEPF can be claimed by making an application in Form IEPF-5 which is available at IEPF website at www.iepf.gov.in by following the procedure prescribed under the IEPF Rules.

For further information/clarification/assistance, concerned shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer

Agent at below mentioned address: Link Intime India Private Limited

Unit: Bharat Forge Limited C 101, First Floor, 247 Park

LBS Marg, Vikhroli West,

Mumbai 400083 Tel No.: 022-4918 6270

Web-link: https://liiplweb.linkintime.co.in/helpdesk/Service\_Request.html

For Bharat Forge Limited Tejaswini Chaudhari

Place : Pune Date: September 06, 2024

Company Secretary and Compliance Officer



# **VINNY OVERSEAS LIMITED**

Corporate Identification Number: L51909GJ1992PLC017742 Registered Off.: B/H International Hotel, Narol-Isanpur Road, Narol, Ahmedabad, Gujarat 382405 India. | Tel. No.: +91 9328804500-6300-7400

Email: cs@vinnyoverseas.in.cfo@vinnyoverseas.in | Website: www.vinnyoverseasin.in

### INFORMATION REGARDING 32nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that the 32<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 30<sup>th</sup> Day of September, 2024, at 2:00 am., through two-way Video Conferencing (VC") / Other Audio Visual Means (OAVM) facility in Nos. - 14/2020 dated 08th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 05th May, 2020 and 09/2023 dated 25th September, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Hereinafter collectively referred to as "the Circulars") to transact the business as set forth in the Notice of the 32rd AGM.

In compliance with the Circulars, the Notice of the 32rd AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail Id are registered with the Company/National Securities Depository Limited/Central Depository Services (India) Limited (the Depositories). A copy of the Notice of the 32rd AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will also be available on the Company's website www.vinnyoverseas.in; on the website of the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com, respectively and on the website of Bigshare Services Pvt Ltd i.e. www.bigshareonline.com. The Company has engaged Bigshare Services Pvt Ltd for providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM.

Manner for registering updating e-mail ld: In case the Member's e-mail ld's already registered with the Company/Depositories, login details for e-voting shall be sent on the registered e-mail ld. In case the Member holding Shares in physical mode and has not registered his/her e-mail ld with the Company/Depositories, he/she may do by sending a duly signed request letter to Bigshare (RTA) by providing Folio No. and name of the Shareholder at Bigshare Private Limited (Unit- Vinny Overseas Limited), Office No S6-2 | 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093 | Maharashtra | India., E-mail Id: ivote@bigshareonline.com. In case the Shares are held in demat mode, the Shareholder may contact the Depository Participant ("DP") and register the e-mail in the demat account as per the process

#### followed and advised by the DP. MANNER OF VOTING AT THE AGM

The Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the 32rd AGM, through the electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode or in physical mode & who have not registered their e-mail id, will be provided in the Notice of the 32<sup>nd</sup> AGM. The details pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

- Cut-off date for the purpose of remote e-voting is Monday, 23rd September, 2024. Period of e-voting: e-voting starts from 9:00 A.M. on 27th September 2024 and ends at 5:00 P.M. on 29th September 2024. Please note that remote e-voting will not be allowed beyond the above mentioned time and date.
- In case shareholders/ investors have any queries regarding E-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and i-Vote e-Voting module available at https://ivote.bigshareonline.com, under the download section or you can email ivote@bigshareonline.com or call at: 1800 22 54 22.

The above information is being issued for the benefit of all the Members of the Company in compliance with the Circulars. This information is also available on the Company's website i.e. www.vinnyoverseas.in; on the website of the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com, respectively.

The Members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent quoting the Folio Number /DP ID and Client ID at - Bigshare Services Pvt Ltd.

(Unit: Vinny Overseas Limited)

Date: 06th September, 2024

For Vinny Overseas Limited HIRALAL JAGDISHCHAND PAREKH

Managing Director

halque

Place: Ahmedabad

### ESPRIT STONES LIMITED

(Formerly Known as 'Esprit Stones Private Limited') Reg. office: - SP 1, Udyog Vihar, Sukher Industrial Area, Udaipur, Rajasthan-313004

CIN: U74999RJ2016PLC056284 • Website: www.espritstones.com • Ph., 9116652582 • Email: legal@espritstones.com NOTICE OF 08TH ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

### Notice is hereby given that the D8th Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Esprit Stones Limited ("the Company") will be held on Monday, September 30, 2024, at 11:00 a.m. (IST), through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means ("VC/DAVM") to transact the

business, as set out in the Notice of the AGM. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("the Act"), provisions of the Securities and Exchange Board of India "SEBI" (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with all applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI from time to time. Members

participating through the VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the applicable relevant circulars of MCA and SEBI issued from time to time, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 has been sent through electronic mode on Friday, September 06, 2024 to all the Shareholders whose e-mail addresses

are registered with the Company/ Link Intime India Private Limited ("RTA") / Depositories. The Notice of the O8th AGM and Annual report are also available on:

 a) the website of the Company at www.espritstones.com; b) relevant section of the website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com respectively

c) the website of the RTA at https://instavote.linkintime.co.in/ The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection as per the procedure provided in

Point No. 9 of the Notice of AGM. In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations & Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at

the AGM by electronic means. The Company has engaged the services of the RTA for providing the e-voting facility both, before the AGM from any place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") and during the AGM ("e-voting at AGM"). In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, e-voting process will also be enabled for all 'individual demat account holders', by way of a single login credential, through their demat accounts) websites of Depository Participants ( Depositories.

The process and manner for remote e-voting and voting at the AGM through various mode is provided in notice of the AGM and is also available on the Company's website www.espritstones.com.

Members attending the AGM through VC/OAVM and not having cast their vote on the resolutions forming the part of Notice through remote evoting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting facility provided during the AGM. Members who have

cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting & voting at the AGM is Monday, September 23, 2024.

The remote e-voting will start on Friday, September 27, 2024 (9:00 a.m. IST) and end on Sunday 29, 2024 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module will be disabled thereafter. Once vote is caste by Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024 may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail in the Notice.

CS Abhik Jain, Proprietor, M/s Abhik Jain and Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting process (electronically or otherwise) in a fair and transparent manner. In case Shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL,

they may contact the respective helpdesk given below: Login type Helpdesk Details

Individual Members holding securities in demat mode with NSDL-

Date: September 07, 2024

Place: Udaipur

Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at.: 022 - 4886 7000 and 022-2499 7000

Individual Members holding securities in demat mode with CDSL-

Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll

In case shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta Vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in.

For any grievances related to remote e-voting, please contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President - e-voting, Link Intime India Private Limited at C 101, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083 e-mail to enotices@linkintime.co.in or contact: Tel: 022-4918 6000. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least 3 (Three) days prior to meeting i.e. Monday, September 30, 2024 mentioning their name, demat account number/folio number, e-mail ID, mobile number at legal@espritstones.com. Only those shareholders who have registered themselves as a speaker will be

allowed to express their views/ask questions during the AGM. Live webcast of the AGM proceedings can be viewed by the members by logging on to the instameet website of the Link Intime at https://instameet.linkintime.co.in as per the as per the procedure provided in Point No. 12 of the Notice of AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular the instructions for joining the AGM,

manner of casting vote through remote e-voting and voting at the AGM. Result of AGM shall be declared by, Tuesday, October 01, 2024, and shall be placed along with the Scrutinizers Report on the Company's website

at www.espritstones.com, website of the RTA at https://instavote.linkintime.co.in/ and shall be communicated to NSE.

For Esprit Stones Limited Sd/- Anjali Pandey

Company Secretary and Compliance Officer, M. No. A45660

## **PPFAS Mutual Fund**

**PPFAS Asset Management Private Limited** (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg,

230 Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com CIN No: - U65100MH2011PTC220623

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF PARAG PARIKH DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND ('THE SCHEME') OF PPFAS MUTUAL FUND ('THE FUND')

Pursuant to SEBI Master Circular for Mutual Funds No. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June 27, 2024, the Risk-o-meter of Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund, Scheme of PPFAS Mutual Fund


stand revised as under: Sr. Name and This product is suitable for **Revised Scheme's** No. | Type of Scheme investors who are seeking\* Risk-o meter

**Risk: Moderate Parag Parikh Dynamic** 

**Asset Allocation Fund** 

- (An Open ended Dynamic Asset Allocation Fund)
- Capital Appreciation & Income
- generation over medium to long term.

 Investment in equity and equity related instruments as well as debt and money tovestors understand that their principal market instruments while managing risk will be moderate rick. through active asset allocation



This addendum shall form an integral part of the SID / KIM of the aforesaid Scheme of the Fund as amended from time to time.

(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: September 06, 2024

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



For PPFAS Asset Management Private Limited

Director



#### BHARAT NIDHI LIMITED CIN: U51396DL1942PLC000644

Regd Office: 3/8, 2nd Floor, Asaf Ali Road, New Delhi 110002 Email ID: bharatnidhi1@gmail.com Phone No.: 011-43562982

NOTICE

#### Notice of 81st Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Notice is hereby given that:

- 1) The 81st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024 AT 3:00 P.M. THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") to transact the business as stated in the Notice thereof, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, in continuation of general circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ("MCA Circulars"). The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.
- remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive).
- 24 has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. The requirements of sending physical copy of AGM Notice and Annual Report to the Members have been dispensed with vide
- to time, the details of the remote electronic voting (remote e-voting & e-voting during the AGM) are given hereunder.
- (a) The Business to be transacted at the AGM may be transacted by remote e-voting or e-voting facility at the AGM.
- module shall be disabled thereafter. (c) The Cut-off date is September 23, 2024. A person, whose name is recorded in the
- register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.
- requested to send the written/email communication to the RTA at parveen@skylinerta.com by mentioning their Folio no /DP ID and client id to for obtaining support in this regard. (e) The Members participating in the AGM through VC facility and have not casted their
- voting system available during the AGM. (f) The Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again through the e-
- voting system during the AGM. (g) Mr. Mohit Bansal (M/s. Mohit Bansal & Associates), Practicing Company Secretary (Membership No. F11292, COP No. 16860), has been appointed as the
- Scrutinizer for the e-voting process. (h) The detailed procedure for remote e-voting / e-voting at AGM and attending AGM
- through VC is provided in the Notice of the AGM.
- website of the CDSL www.evotingindia.com. (j) In case of any queries/issues regarding e-voting, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi (1800 21 09911), Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill
- RTAat parveen@skylinerta.com. (k) Pursuant to the Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at the prescribed rates. The members are requested to update their PAN with Registrar and Transfer Agents (in case of shares held in physical mode) and depository participants (in case shares held in demat mode). However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident

Income Tax Act @ 10% on the amount of dividend where shareholders have registered their PAN with depository participants or with the RTA as applicable. Kindly note that the tax shall be deducted @ 20% in the following cases:-

individual shareholder if the total dividend to be received during FY 2024-25 does

- shareholders who do not have PAN or have not registered their valid PAN as mentioned above:
- shareholder's whose PAN is not linked with Aadhaar.

submit a yearly declaration in Form 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at Company's RTA email at info@skylinerta.com and parveen@skylinerta.com by September 23, 2024 (upto 5.00 p.m. IST).

For Bharat Nidhi Limited

Date: September 06, 2024 Place: New Delhi

**NOTICE TO MEMBERS** 

# **Reliance Communications Limited**

Registered Office: H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai - 400 710 Tel: +91 22 30386286 | Website: www.rcom.co.in | CIN:- L45309MH2004PLC147531 Notice calling the 20" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company, scheduled to be held, in compliance with all applicable

provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and ("SEBI"), through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Saturday, September 28, 2024 at 11:30 A.M. (IST) and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2023-24, along with Director's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto have been sent to the members of the Company on September 06, 2024, electronically on their email ids registered with the Company/Depository Participant (s).

The Notice of the AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.rcom.co.in and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited (Kfintech), at www.kfintech.com. The Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM and the instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

### Remote e-voting and e-voting during AGM

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFintech as the authorized agency for conducting the e-AGM and for providing e-voting facility.

Information and instructions comprising the manner of voting, including voting remotely by Members holding share(s) in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail address have been provided in the Notice of the AGM. The manner in which persons who became members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off date (mentioned herein below) / Members who have forgotten the User ID and Password, can obtain / generate the same has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting - 10.00 a.m. (IST) on Wednesday, 25th September, 2024

End of remote e-voting - 5.00 p.m. (IST) on Friday, 27<sup>th</sup> September, 2024 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFintech

upon expiry of the aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members as on the 'cut-off date' i.e. Saturday, September 21, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through Insta Poll.

### Manner of Registering / updating email addresses:

Place: Navi Mumbai

Dated: September 06, 2024

- Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register update their email addresses by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company) duly filled and singed along with requisite supporting documents to KFintech at Selenium Tower - B, Plot No. 31 & 32, Survey No. 116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 Telangana.
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail address, are requested to register/update the same with Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

Queries/grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed to the Company Secretary through email at rcom.investors@relianceada.com or call at +91 406716 2222 OR may please visit Help and FAQs section available at Kfintech's website https://evoting.kfintech.com OR contact toll free no.(India) 1800 309 4001.

Joining the AGM through VC/OVAM: Members will be able to attend the AGM through VC / OVAM and the information about login credentials to be used and the steps to be followed for

attending the AGM are explained in note no. 14 of the Notice of the AGM. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

> For Reliance Communications Limited (Company under Corporate Insolvency Resolution Process)

> > Rakesh Gupta

(Membership No.: F5951) Registered Office:

Company Secretary & Compliance Officer

Reliance Communications Limited

H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai - 400 710 CIN:- L45309MH2004PLC147531

Tel: +91 22 30380057, Website: www.rcom.co.in

(Reliance Communications Limited is under corporate insolvency resolution process pursuant to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. With effect from June 28, 2019, its affairs, business and assets are being managed by, and the powers of the board of directors are vested in, the Resolution Professional,

Mr. Anish Niranjan Nanavaty, appointed by Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench, vide order dated June 21, 2019 which was published on the website of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench on June 28, 2019). financialexp.epapr.in New Delhi

2) The Register of Members and Share Transfer Registers of the Company shall

In line with the MCA Circulars, the Notice calling the AGM and Annual Report 2023-

 In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time

(b) The remote e-voting shall commence from Friday, September 27, 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, September 29, 2024 (5.00 p.m. IST). The e-voting

(d) Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date is

vote on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-

(i) The Notice is also available on the RTA's Website www.skylinerta.com and on the

Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company's

not exceed Rs. 5000/-For resident shareholders, tax shall be deducted at source under Section 194 of the

shareholders who appear as specified person in section 206AB compliance

A resident individual shareholder with PAN who is not liable to pay income tax can

Amita Gola

Company Secretary

बिजनेस रेमेडीज

### एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ की रणनीतिक साझेदारी

यह साझेदारी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में एयु एसएफबी के विविध ग्राहक आधार को विश्वसनीय, स्थिर और किफायती बीमा समाधानों तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाती है।



बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) और सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस (सामान्य बीमा) कंपनी युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (यूआईआईसी) ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसका मकसद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा और इससे जुड़े समाधानों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करना है। इसमें वाहन बीमा, व्यक्ति गत दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, प्रॉपर्टी बीमा, दुकानदार बीमा, साइबर सुरक्षा बीमा और अन्य बहुत कुछ

कैशफ्री पेमेंट्स की सिक्योर आईडी ने

कारोबारों के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का

100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा किया पार

बिजनेस रेमेडीज। आज की डिजिटल दुनिया में, ऑनलाइन लेन-देन तेज़ी से

बढ़ रहे हैं, जो व्यवसायों और उनके ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर नई

चुनौतियां भी सामने लेकर आ रहे हैं। सुरक्षित और प्रामाणिक लेन-देन

सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और फ्रॉड प्रेवेंशन एक

मज़ब्रत व्यावसायिक रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस चुनौती का सामना

करने के लिए, कैशफ्री पेमेंट्स ने हाल ही में सिक्योर आईडी लॉन्च किया है।

यह एक एंड-टू-एंड सत्यापन प्लेटफ़ॉर्म है जो व्यवसायों को अनुपालन प्रवाह

50 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी को रोककर महत्वपूर्ण नतीजे

हासिल किए हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म व्यवसायों को वित्तीय नुकसान और उनकी

प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान से बचाने में अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहा

है। कैशफ्री पेमेंट्स के सीईओ और को-फाउंडर आकाश सिन्हा ने कहा,

'ऑनलाइन संचालन करने वाले व्यवसायों को फॉड के कारण काफ़ी राजस्व

हानि और धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। फ्रॉड न केवल वित्त, बल्कि

ग्राहक विश्वास और जुड़ाव को भी प्रभावित करता है। अनुपालन और जोरिवम

प्रबंधन के लिए प्रभावी उपाय दरअसल विश्वास बहाल करने और सुरक्षित

डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।' सिक्योर आईडी बड़े

निगमों से लेकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) तक सभी

आकार के व्यवसायों को पूरा करता है। आकाश आगे कहते हैं, 'प्लेटफॉर्म

का उपयोग में आसान इंटरफ़ेस और अपने अनुकूल बनाने योग्य सुविधाएँ इसे

कौशल की जरूरत भी नहीं होती।' उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि

छोटे और मध्यम आकार के

व्यवसायों के लिए, जो अक्सर

सीमित संसाधनों और बजट का

सामना करते हैं, सिक्योर आईडी

आवश्यकताओं के लिए एक लागत

प्रभावी समाधान प्रदान करता है।

मैन्युअल सत्यापन प्रक्रिया की

आवश्यकता को समाप्त करके, ये

व्यवसाय अपने परिचालन व्यय को

सकते हैं। इसके अतिरिक्त,

सिक्योर आईडी उन्नत सुरक्षा उपायों

को नियोजित करके एसएमई को

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे

डेटा सुरक्षा विनियमों का अनुपालन

करने में मदद करता है। सिक्योर

आईडी व्यवसायों को उनके

सुव्यवस्थित करने और धोखाधड़ी

के जोखिमों को कुशलतापूर्वक

कम करने में सक्षम बनाता है।

लागत को कम कर सकते हैं और

अपने कामकाज में बहुत सुधार

कर सकते हैं। बैंकों, खाता

एग्रीगेटर, क्रेडिट ब्यूरो और

डिजिलॉकर सहित विभिन्न डेटा

सुनिश्चित करता है।' आज के

डिजिटल परिबृश्य में, जहाँ

धोखेबाज़ लगातार अपनी रणनीति

और तरीकों को बढ़ा रहे हैं।

प्रोसेस

वेरिफिकेशन

सभी

सिक्योर आईडी ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा सत्यापन पूरे करके और

बनाने और पहचान धोखाधड़ी को रोकने में सक्षम बनाता है।

Cashfree

**Payments** 

शामिल है।एयू एसएफबी और यूआईआईसी ने औपचारिक रूप से रणनीतिक गठबंधन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह उनके सहयोगी सफर में मील का महत्वपूर्ण पत्थर है। समझौतों पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं डिप्टी सीईओ उत्तम टिबरेवाल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भूपेश सुशील राहुल ने हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी एयू एसएफबी के 'फॉरएवर बैंक' के सपने को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। इसका उद्देश्य पूरे देश में व्यापक स्तर पर वितीय समाधान प्रदान करना है।

# बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई

लॉन्च के पहले वर्ष में 3500 करोड़ रुपये एयूएम के पार

FINSERV



वाला यह इसका पहला इक्विटी निवेश निर्णयों, अनुशासित जोखिम फंड है। फंड ने अपने उद्घाटन वर्ष प्रबंधन और गतिशील आवंटन की मेंफंड ने अपने शुरुआती वर्ष में हमारी यात्रा को दर्शाता है। इस नियमित योजना के तहत रणनीति ने हमें निवेश को समय के 41.30%\* और प्रत्यक्ष योजना के साथ फैलाने की सुविधा दी, जिससे तहत 43.43%\* का रिटर्न देते भू-राजनीतिक जोरिव्रमों से बाजार हुए मजबूत प्रदर्शन किया। की अस्थिरता का प्रभाव कम हुआ फंड के एक साल पूरे होने पर, और हमारी एंट्री प्वाइंट्स को बेहतर बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ बनाया गया।इस दृष्टिकोण ने यह गणेश मोहन ने कहा, 'हम अपने सुनिश्चित किया कि हमारा फंड प्रमुख इक्विटी फंड की पहली अपने लेबल के अनुरूप बना रहे, वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए

उत्साहित हैं। यहविकास मेगाट्रेंड

निवेश के विषय के तहत रणनीतिक

नीलकंठ रॉक-मिनरल्स लिमिटेड

CIN: L14219RJ1988PLC062162

पंजीकृत कार्यालयः प्लैट नं. 606, योजना चोपासनी जागीर, खसरा नं. 175/74,

प्लॉट नं. १५/१६ जोधपुर, राजस्थान-३४२००१

ई-मेल आईडी : info@neelrock.com, दूरभाषः +0291-2631839

एतब् द्वारा सुचना बी जाती है कि नीलकंठ रॉक-मिनरल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सबस्यों की 36वीं वार्षिक आम

बैठक (एजीएम) एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए सोमवार, 30 सितंबर,

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा

परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत

तरीके से भेज दी गई है। कंपनी ने 6 सितंबर, 2024 को सभी सदस्यों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने का

काम परा कर लिया है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.neelrock.com. बीएसई लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ के प्रावधानों संपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम

20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय

कंपनी रचिवालय संस्थान द्वारा जारी वार्षिक आम बैठक पर रचिवीय मानक (एसएस-२) की अनुपालना में सदस्यों

को एजीएम के नीटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम मतदान स्थल के अलावा अन्य स्थान से सेंट्रल

डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किये गये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट

ई-वोटिंग'') मतबान देने की सुविघा प्रदान की गई है, 23 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक

रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए हकदार होंगे, एजीएम स्थल

पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग

के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट कर सकेंगे, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है

और कट-ऑफ तारीख यानी 23 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह हेल्पडेस्क evoting@cdslindia.com

पर अनरोध भेजकर यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट

ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूबा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ९१ के प्रावधानों संपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ और

भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (सचीकरण समझौता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५

के नियम 42 की अनुपालना में एतब् द्वारा सूचित किया जाता है कि सबस्यों का रजिस्टर और कंपनी की

शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 24.09.2024 से 30.09.2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक आम बैठक

से अपना वोट वाले सबस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

175/74, प्लॉट नंबर 15/16 जोधपुर, राजस्थान-342001 पर आयोजित की जाएगी।

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

रूप से समायोजित कर रहा है और बाजार की बढ़लती स्थितियों के आधार पर रणनीतिक रूप से क्षेत्रों का चयन कर रहा है।' निमेश चंदन, सी. आई. ओ., बजाज फिनसर्व ए. एम. सी. ने बेहतर प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, 'बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड प्रौद्योगिकी, नियामक, स्थिरता, जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में भारत के

#### **A.K. SPINTEX LIMITED**

Regd. Office:-14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.) Ph: 9887049006, 9929139002 • Email: akspintex@gmail.com • Website: www.akspintex.com

**NOTICE OF AGM AND E-VOTING** 

बाजार पूंजी आवंटन को गतिशील

on Monday 30th September, 2024 at the Registered office of the Company at 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliva Kalan, Bhilwara 311001at 11:00 A.M. to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM:

Electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report for the year 2023-24 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.akspintex.com Physical copies of the same have also been sent to all other members at their registered address

Members please note that:

**Particulars** 

नीलकंठ रॉक-मिनरल्स लिमिटेड

प्रबंध निदेशक

Members holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2024 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of AGM through remote-electronic voting system on Central Depository Service Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("Remote E-voting). All the members are informed that: . The remote e-voting shall commence on 27th Sept., 2024 at 10:00 A.M. [IST] and shall

end on 29th Sept., 2024 at 5:00 P.M. [IST] II. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the loginid and password by sending an e-mail to akspintex@gmail.com or

helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No./DP ID and client ID No. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting your vote. a] The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time

for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently:

b] The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c] The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d] A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper; III. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "NOTES" in notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the FAQs for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact:

| 744.555            | F M                            | Chistan Dand Billion Kalan  |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                    | Fort, Mumbai 400001            | Chittor Road, Biliya Kalan, |
|                    |                                | Bhilwara-311001 (Raj.)      |
| Name & Designation | Bhawendra Jha, Dy. Manager     | Ashish Kumar Bagrecha       |
|                    |                                | CS & Compliance Officer     |
| Tel.               | 022-22723333                   | 01482-249002                |
| E-mail id          | helpdesk.evoting@cdslindia.com | akspintex@gmail.com         |

Central Depository Services (India) Ltd. A.K. SPINTEX LIMITED

मेगाट्रेंड-संचालित अवसरों का दोहन करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है। इसका विविध पोर्टफोलियो प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है।

ग्रुणवत्तापूर्ण कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाने पर जोर दिया गया है जिनके पास विकास के लिए मजबूत गुंजाइश है।

### ढाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड

बूरभाष संख्या : 0141-4057171, ई-मेल: cs@polywood.org, वेबसाइट: www.polywood.org सीआईएन: L29305RJ1992PLC007003

#### बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग एवं पुस्तक बंद करने की सूचना

तह्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की बत्तीसवीं (32वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ('एमसीए सर्कुलर') सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020 क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 क्रमांक 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 क्रमांक 22/2020 दिनांक 15 जन 2020 क्रमांक 33/ 2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, क्रमांक 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020, क्रमांक 10/2021 दिनांक 23 जून 2021, क्रमांक 20/2021 दिनांक 08 दिसम्बर 2021, क्रमांक 03/2022 दिनांक 05 मई 2022, ('एमसीए परिपत्र') और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या ('सेबी परिपत्र') सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआईआर/२०२३/१६७ दिनांक ०७ अक्टूबर 2023. सेबी/ एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023. परिपत्र क्रमांव सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ, सीएफडी/ सीएमडी२/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी. 2021 सेबी/एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/ पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ('सेबी परिपत्र'), के अनुसार लागु प्रावधान के प्रनुपालन में बिना एक सामान्य स्थान पर सबस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गर्ड है।

32वीं एजीएम के बोटिस की डलेक्टॉबिक पतियां. वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उन सभी सबस्यों को भेज दिया गया है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 06 सितंबर 2024 को पूरा हो चुका है। उपरोक्त दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट यानी www.polywood.org, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.bseindia और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें सोमवार, 23 सितंबर 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सिम्मिलत) तक अंतिम लाभांश और वार्षिक आम बैठक के भुगतान के लिए बंद रहेंगी। बोर्ड द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनका नाम शनिवार, 21 सितंबर

2024 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सबस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है। सीधे बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपने बैंक विवरण और केवाईसी को अपडेट करें, जहां शेयर डीमटेरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश कर रही है, जिससे वे कंपनी की एजीएम

में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविध

प्रदान करने के लिए सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग को उक्त तिथि और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 21 सितंबर, 2024 है। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस के नोट नंबर 26 में

जिन सबस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर हासिल कर लिए हैं और एजीएम की सूचना भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि से पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, वह एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम की तिथि पर इलेक्टॉनिक रूप से यानी रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने का

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) को संबोधित किया जा सकता है या कंपनी के कंपनी सचिव श्री स्पर्श जैन से B-9D(1), मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302017 राज. दूरभाष 0141-4057171 और ईमेल cs@polywood.org पर संपर्क करें।

सीएस मनीष संचेती, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, (एफसीएस 7972, सीपी 8997) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के परिणाम सोमवार. 30 सितंबर 2024 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। सबस्यों की जानकारी के लिए. स्क्रटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम. कंपनी की वेबसाइट www.polywood.org और सीडीएसएल की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

ढाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड के लिए

स्थानः जयपुर दिनांक: 07.09.2024

स्पर्श जैन कंपनी सचिव सबस्यता संख्या - ३६३८३



व्यवसायों के लिए आसान बनाती हैं और इसके लिए बहुत अधिक तकनीकी विनंक: 7 क्षितम्बर, 2024

### एस्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड

(पूर्व में 'एस्प्रिट स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालयः - एसपी 1, उद्योग विहार, सुखेर औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर, राजस्थान-313004 सीआईएनः U74999RJ2016PLC056284, वेबसाइटः www.espritstones.com, फोनः 9116652582, ईमेलः legal@espritstones.co

के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगी।

### 08वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना

#### एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एस्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड (पूर्व में एस्प्रिट स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली) (कंपनी) के शेयरधारकों की ''वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में बताए अनुसार कारोबार किया जा सके। बैठक का स्थान कंपनी क

एजीएम का आयोजन कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों (अधिनियम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी (सूचीबद्धत दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाएगा, साथ ही कांपीरेंट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सभी लागू परिपत्रों के साथ पढ़ा जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को

अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएँगा। समय-समय पर एमसीए और सेबी के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में जारी, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट शुक्रवार 06 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी शैयरधारकों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/लिंकटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेर (आरटीए) / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं।

वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित पर भी उपलब्ध है:

काफी कम कर सकते हैं और

al) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के संबंधित अनभाग यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') www.nseindia.com पर और अपने व्यवसाय के अन्य महत्वपूर्ण सी) आरटीए की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ पर क्षेत्रों में संसाधनों को आवंटित कर

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 20 के साथ अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है. और भारती कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सेबी लिस्टिंग विनियमन और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों के इलेक्टॉनिक माध्यम से एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने एजीएम से पहले एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से (रिमोट ई-वोटिंग) और एजीएम के दौरान (एजीएम में ई-वोटिंग,

ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए आरटीए की सेवाएं ली हैं। सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के ानुसार, <sup>स</sup>भी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों के लिए भी उनके डीमैट खातों /डिपॉजिटरी प्रतिभागियों /डिपॉजिटरी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिः क्रेडेशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की जाएगी। एजीएम में विभिन्न तरीकों से रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग की प्रक्रिया और माध्यम एजीएम की सूचना में दिए गए हैं और यह कंपनी की वेबसाइ

www.espritstones.com पर भी उपलब्ध है । ीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य तथा नोटिस का हिस्सा बनने वाले प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नर्ह डालने वाले तथा अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं होने वाले सदस्य एजीएम के दौरान प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने क

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 है। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी तथा रविवार 29, 2024 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी कोई भी व्यक्ति जो इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह

नोटिस में विस्तार से बताई गई रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। मेसर्स अभिक जैन एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोपराइटर सीएस अभिक जैन को मतदान प्रक्रिया (इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा) की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटनाईजर नियुक्त किया गया है।

यदि डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित आकाश बताते हैं, 'पहचान कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं: सत्यापन कार्यों को स्वचालित एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य-

नांगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk. evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क रं करके, व्यवसाय परिचालन नंपर्क कर सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभृतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य-लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk. evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपव

यदि शेयरधारकों /भौतिक मोड में प्रतिभतियां रखने वाले सदस्यों /संस्थागत शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं. तो वे अक्सर पछे जान वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और https://instavote.linkintime.co.in. पर उपलब्ध इंस्टा वोट ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं । रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, कृपया श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष - ई-वोटिंग, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सी 101, 247 पार्क, एल.बी एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई-400083 पर संपर्क करें या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल करें या दूरभाषः 022-4918 6000 पर संपर्क करें । शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना ⁄ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक से कम से कम 3 (तीन) दिन पहले यानी सोमवार, 30 सितंबर, 2024

को अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर ई-मेल आईडी मोबाइल नंबर legal@espritstones.com पर भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर

एग्रीगेटर के साथ प्लेटफ़ॉर्म का केवल वे शेयरधारक जिन्होंने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने /प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। एकीकरण व्यापक डेटा कवरेज एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट सदस्यों द्वारा लिंक इनटाइम की इंस्टामीट वेबसाइट https://instameet.linkintime.co.in पर लॉग इन करवं और सटीक सत्यापन परिणाम

एजीएम की सूचना के बिंदु संख्या 12 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार देखा जा सकता है । सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के गाध्यम से वोट डालने का तरीका और एजीएम में मतदान करें। एजीएम का परिणाम मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2024 तक घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.espritstones.com, आरटीए की वेबसाइ:

https://instavote.linkintime.co.in/ पर स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट के साथ रखा जाएगा और एनएसई को सूचित किया जाएगा । हस्ता. /- अंजली पाण्डे

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी M. No. A45660

### **SHASHWAT FURNISHING SOLUTIONS LIMITED**

Regd. Office: 121, Mahaveer Nagar, Jain Colony, Jodhpur - 342001, Rajasthan, India E-mail: cs@handicraftsvillage.com, Website: www.handicraftsvillage.com, Tel. No.: + 91-900126900

NOTICE OF 04TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE **E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE** Notice is hereby given that,

The 04TH Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, September 30, 2024, at 11:00 A.M. at factory premises

situated at Plot No. 120, 121, 122, Khasra No. 277/1 Salawas Industrial Area, Jodhpur, Rajasthan-342013, India to transact the business as set out in the The Notice of AGM and Annual Report for the Fiscal 2024 have been emailed on

September 05, 2024, to those members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.handicraftsvillage.com. Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended

and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing facility to its member holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off-date September 20, 2024, for casting their vote on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that: The business as set forth in the Notice of the 04th AGM may be transacted

through voting by electronic means;

The remote e-voting shall commence on September 27, 2024 (9.00 a.m. IST); The remote e-voting shall end on September 29, 2024 (5.00 p.m. IST);

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 20, 2024:

Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e September 20, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NDSL for evoting, then the existing user ID and password/PIN can be utilized for casting the

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5.00 p.m. IST on September 29, 2024, and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and c) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 20, 2024, only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

The Notice of AGM and Annual Report for the Fiscal 2024 is available on the Company's website at www.handicraftsvillage.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Members who have not received the Notice and Annual Report for the Fiscal 2024 may download the same from the aforesaid website

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days will be inclusive) For Shashwat Furnishing Solutions Limited

Date: September 06, 2024

Place: Jodhpur

Company Secretary & Compliance Officer

### सोनी मेडिकेयर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 38, कानोता बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,

जयपुर राजस्थान ३०२००४, दूरभाष नं.: ०१४१-५१६३७०० वेबसाईट: www.sonihospitals.com, ई-मेल: cs@sonihospitals.com

36वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और

### बुक क्लोजर की सूचना एतब्रहारा सूचना दी जाती है कि सोनी मेडिकेयर लिमिटेड (' कंपनी') के सदस्यों की 36वीं

वार्षिक आम बैठक ६एजीएम८ सोमवार, ३० सितंबर, २०२४ को दोपहर ०३:०० बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 38, कनोटा बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर RJ 302004 IN पर आयोजित की जाएगी। संबंधित सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-2024 की

वार्षिक रिपोर्ट आदि कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनका नाम 30 अगस्त, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है और जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sonihospitals.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों द्वारा ईमेल पतों को पंजीकृत/ अपडेट करने का तरीका नीचे दिया गया है:

यिंद शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा cs@sonihospitals.com पर प्रदान करें

यदि शेयर डीमेंट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) cs@sonihospitals.com पर प्रदान करें।

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे IST से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। कंपनी के सदस्य, कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका नीचे दिया गया है:

एजीएम के नोटिस में डीमैटरियलाइज्ड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपने ईमेल पते को पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से ('रिमोट ई-वोटिंग') मतदान का तरीका प्रदान किया गया है। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.sonihospitals.com पर भी उपलब्ध होगा

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेशियल सबस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी टिंसिपेंद्स के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल उत्पन्न कर सकते हैं।

उक्त एजीएम के उद्देश्य से सब्स्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

> बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते सोनी मेडिकेयर लिमिटेड

स्थानः जयपुर तिथि: 06-09-2024

हस्ता/-जूही गुरनानी कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी